

A/no. 03/MR-3054/MBD/2020.21

**Schedule XLV-Form No. 134**

N/W - Udagara Bengal Border to Belwa  
pothia Road under MR-3054

RWD, WD, KISHANGANJ-2 **DIVISION**

pothia.

**SUB-DIVISION**

MB no. 1093

**MEASUREMENT BOOK**

Karnal Engineers PVT LTD.

प्रमाणित किया जाता है कि इस माप पुस्तक में  
(एक सौ) मुद्रित दोहरे पृष्ठ है। जो... श्री राम प्रसाद  
सहायक अभियंता, ग्रा०का०वि० कार्य अवर प्रमण्डल... पोथी  
के नाम से निर्गत किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता  
ग्रा०का०वि० कार्य प्रम...  
24/6/78  
शिशिरगंज-2

Sch. XLV—Form No. 134

RWD, (W) Div., KNE-2 DIVISION  
pothia. SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 1093

Name of Officer Sri Ramu prasad.

Assistant Engineer.

Date of first entry

Date of last entry

# 1st on AIC Bill

Name for work— Deleted d Measurement

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

| Particulars | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|             | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| N/W -       | M-R Road from Udgosen         |    |    |    |                  |
|             | Bargul Boudar to Belue        |    |    |    |                  |
|             | Pullies Path under MP         |    |    |    |                  |
|             | 3054                          |    |    |    |                  |

Army - Kanara Engineers (P) Ltd.

Date of start - 24-06-2020

Date of completion - 23-05-2021

Date of Entry - 15-01-2021

(1) Chargen and getting  
under heighten sheet  
do do

$$\begin{aligned}
 & - 10 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 600 \text{ cm}^2 \\
 & - 20 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 1200 \text{ cm}^2 \\
 & - 20 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 1200 \text{ cm}^2 \\
 & - 10 \times 30 \times 2 \times 1.00 = 600 \text{ cm}^2 \\
 & \underline{\hspace{1cm}} 3600 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$h = 0.36 \text{ Hq}$$

(2) Continuation to sub side  
getting under do do

$$\begin{aligned}
 & - 2 \times 10 \times 30 \times 0.700 \times 0.300 = 126 \text{ cm}^3 \\
 & - 2 \times 10 \times 30 \times 1.00 \times 0.250 = 150 \text{ cm}^2 \\
 & - 2 \times 10 \times 30 \times 0.700 \times 0.300 = 126 \text{ cm}^3
 \end{aligned}$$

Continuation

$$- 2 \times 10 \times 30 \times 1.00 \times 0.200 = 120 \text{ cm}^3$$

# Abstract of logs

14

Sch. XLV—Form No. 134

| Particulars                   | Details of actual measurement |    |    |    | Contents of area |
|-------------------------------|-------------------------------|----|----|----|------------------|
|                               | No.                           | L. | B. | D. |                  |
| (1) Claying and grithm mtl    |                               |    |    |    |                  |
| Deslithen grass dolo          |                               |    |    |    |                  |
| Quake shalo (1) P- 01         |                               |    |    |    |                  |
| nl 0-36 149                   |                               |    |    |    |                  |
| @m 81133.76/149 —             |                               |    |    |    | 18408200         |
| (2) Cuptum de subgrade        |                               |    |    |    |                  |
| erthm shlar dolo              |                               |    |    |    |                  |
| Quake mto (2) P- 14x          |                               |    |    |    |                  |
| 756-000m <sup>3</sup>         |                               |    |    |    |                  |
| @m 176.86/m <sup>3</sup> — M  |                               |    |    |    | 133706200        |
| (3) Purling w/Bm Put          |                               |    |    |    |                  |
| Purling with chm mltly        |                               |    |    |    |                  |
| dolo                          |                               |    |    |    |                  |
| Quake shab (3) P- 54e         |                               |    |    |    |                  |
| 133.789m <sup>3</sup>         |                               |    |    |    |                  |
| @m 1662.12/m <sup>3</sup> — m |                               |    |    |    | 223042200        |
| (4) Purling w/Bm gr 15m       |                               |    |    |    |                  |
| Put hilly dolo                |                               |    |    |    |                  |
| Quake mto (4) P- 01e          |                               |    |    |    |                  |
| 101.398m <sup>3</sup>         |                               |    |    |    |                  |
| @m 4561.00/m <sup>3</sup> —   |                               |    |    |    | 462476200        |
| (5) Purling w/Bm 75 7D mlt    |                               |    |    |    |                  |
| Put Patch dolo                |                               |    |    |    |                  |
| Quake shalo (5) P- 124e       |                               |    |    |    |                  |
| 91.87m <sup>3</sup>           |                               |    |    |    |                  |

Continuation

@M 4267.36/m<sup>3</sup> — M 392042200

A. 1229674200

| Particulars                                               | Details of actual measurement |    |     |           | Contents of area |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-----|-----------|------------------|
|                                                           | No.                           | L. | B.  | D.        |                  |
| (6) Boundary fence and<br>with boundary d.b.              |                               |    | BFM | 12 29 674 | 200              |
| Quartz shale (6) P-12nd                                   |                               |    |     |           |                  |
| 1225.02 m <sup>2</sup>                                    |                               |    |     |           |                  |
| Qm 43.63/m <sup>2</sup> — m                               |                               |    |     | 53        | 447200           |
| (7) Boundary fence and<br>with Boundary enclosure<br>d.b. |                               |    |     |           |                  |
| Quartz shale (7) P-12nd                                   |                               |    |     |           |                  |
| 1225.02 m <sup>2</sup>                                    |                               |    |     |           |                  |
| Qm 14.81/m <sup>2</sup> — m                               |                               |    |     | 18        | 143200           |
| (8) Boundary fence and<br>with Boundary enclosure<br>d.b. |                               |    |     |           |                  |
| Quartz shale (8) P-12nd                                   |                               |    |     |           |                  |
| 1225.02 m <sup>2</sup>                                    |                               |    |     |           |                  |
| Qm 219.11/m <sup>2</sup> — m                              |                               |    |     | 268       | 414200           |
| (9) Boundary fence and<br>with Boundary enclosure<br>d.b. |                               |    |     |           |                  |
| Quartz shale (9) P-12nd                                   |                               |    |     |           |                  |
| 4275.00 m <sup>2</sup>                                    |                               |    |     |           |                  |
| Qm 12.40/m <sup>2</sup> — m                               |                               |    |     | 530       | 10200            |
|                                                           |                               |    |     | 15        | 1622688200       |
|                                                           |                               |    |     | PJ-0.     |                  |

Continuation

Continuation